



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 माघ 1931 (श0)
(सं0 पटना 133) पटना, बृहस्पतिवार, 11 फरवरी 2010

बिहार विधान परिषद्, सचिवालय

अधिसूचना
27 मार्च 2009

सं. वि.प.अ0प्र0-38/09-866(1)/वि.प.—बिहार विधान परिषद् के 161वां सत्र में डा. रामवचन राय, सदस्य बिहार विधान परिषद् के सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में प्राथमिक विद्यालयों के लिए क्रय की जा रही पुस्तकों के निमित्त कोई प्रक्रिया नहीं अपनाये जाने की स्थिति में योजनातर्गत प्रकाशकों के नाम निर्धारण, पुस्तकों का चयन एवं खरीद की वास्तविक स्थिति की जांच करने से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना पर दिनांक 2 मार्च 2009 को हुए सरकार के वक्तव्य के उपरांत कतिपय माननीय सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर से सदन के संतुष्ट नहीं होने की स्थिति सम्यक विचारोपरांत माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद् ने बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 65 एवं तत्संबंधी अन्य उपबंधों का प्रयोग करते हुए सदन के निम्नांकित माननीय सदस्यों की एक विशेष जांच समिति गठित करते हुए यह निदेश देने की कृपा की है कि समिति विचारणीय बिन्दुओं का स्वयं निर्धारण करेगी और जांच प्रतिवेदन दिनांक 15 जून 2009 तक निश्चित रूप से दे देगी।

- | | | | |
|-----|------------------------|---|---------|
| (1) | श्री बासुदेव सिंह | - | अध्यक्ष |
| (2) | श्री राम वचन राय | - | सदस्य |
| (3) | श्री केदार नाथ पाण्डेय | - | सदस्य |
| (4) | श्री राम किशोर सिंह | - | सदस्य |
| (5) | श्री प्रेम कुमार मणि | - | सदस्य |

माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद् के आदेश से,
मुंगेश्वर साहु. सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 133-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>